



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2768]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015/पौष 1, 1937

No. 2768]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2015/PAUSHA 1, 1937

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3488(अ).—जबकि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (निर्वाचन) नियमावली, 1975 के नियम 23 के साथ पठित भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान के आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के एक सदस्य को उक्त विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किया गया है;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार की तारीख 21 अगस्त, 1971 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3259 (अ) में निम्नांकित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

"धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अधीन तालिका में, डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान के सामने स्तम्भ 2, 3, और 4 पर की गई प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद	डॉ. राजेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं	आयुर्वेद	09 सितम्बर, 2015 से 06 अगस्त, 2018 या उसके डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान

विश्वविद्यालय जोधपुर (राजस्थान)	विभागाध्यक्ष, शरीर क्रिया विभाग, आयुर्वेद विश्वविद्यालय कालेज, करवाड़, जोधपुर (राजस्थान)		की आयुर्वेद संकाय का सदस्य बने रहने तक “
------------------------------------	---	--	--

[सं. ए.11019/40/13-ईसी/सीसीआईएम/विश्वविद्यालय निर्वाचन]

जितेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ .3259(अ) तारीख 21 अगस्त, के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन संख्यांक का.आ. 2039(अ) तारीख 24 जुलाई, 2015 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY
NOTIFICATION**

New Delhi, 21st December, 2015

S.O. 3488(E).—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) read with rule 23 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, one member of the Ayurveda System of medicine for the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur, Rajasthan have been elected from amongst themselves by the members of Ayurveda faculty of the said University.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare S.O. Number 3259 (E), dated the 21st August, 1971, namely:—

In the Table, under the heading “Elected under clause(b) of sub-Section (1) of section 3”, against the Dr. S.R. Rajasthan Ayurved University, Jodhpur, Rajasthan, for the entries in columns 2, 3 and 4, the following entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“Dr.Sarvepalli Radhakrishnan. Rajasthan Ayurved University, Jodhpur, (Rajasthan)	Dr. Rajesh Kumar Sharma, Associate Professor and H.O.D., Deptt. of Sharir Kriya, University College of Ayurved, Karwad, Jodhpur (Rajasthan)	Ayurveda	With effect from 9th September, 2015 to 6th August, 2018 or till he ceases to be a member of the faculty of Ayurveda of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur, Rajasthan”.

[No. A.11019/40/13-EC/CCIM University Election]

JITENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Note :-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide number S.O. 3259 (E), dated the 21st August, 1971 and last amended vide Number S.O. 2039(E), dated the 24th July, 2015.